

GST

# Hindi GST - Greek Aligned

फिलेमोन

संस्करण 44.1

[hi]

# काँपीराइट और लाइसेंसिंग

## Hindi GST - Greek Aligned

तारीख: 2023-09-12

संस्करण: 44.1

द्वारा प्रकाशित: BCS

## unfoldingWord® Hebrew Bible

तारीख: 2022-10-11

संस्करण: 2.1.30

द्वारा प्रकाशित: unfoldingWord

## unfoldingWord® Greek New Testament

तारीख: 2023-09-26

संस्करण: 0.34

द्वारा प्रकाशित: unfoldingWord

## License

### Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the full license found at <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

#### You are free to:

- **Share** — copy and redistribute the material in any medium or format
- **Adapt** — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

#### Under the following conditions:

- **Attribution** — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
- **ShareAlike** — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

**No additional restrictions** — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

#### Notices:

You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

# विषयसूची

फिलेमोन	4
Chapter 1	4
योगदानकर्ताओं	5
Hindi GST - Greek Aligned योगदानकर्ताओं	5

# फिलेमोन

## Chapter 1

1{मैं,} पौलुस, जो यीशु मसीह की सेवा करने के कारण इस समय बन्दीगृह में हूँ। मैं यहाँ पर हमारे साथी विश्वासी, तीमुथियुस के साथ हूँ। हे फिलेमोन, {तुझे} {मैं यह पत्र लिख रहा हूँ}। तू भी मसीह की सेवा करता है, और हम तुझे से प्रेम करते हैं। 2और {मैं इन्हें भी लिखता हूँ} अफफिया को, जो हमारी साथी विश्वासिनी है, और अरखिप्पुस को, {जिस रीति से वह मसीह की सेवा करता है} वह हमारे साथ एक सैनिक {के समान} है। और {मैं इन्हें भी लिखता हूँ} विश्वासियों का वह समूह जो तेरे घर में संगति करता होता है। 3{मैं प्रार्थना करता हूँ कि} हमारा पिता परमेश्वर और हमारा प्रभु यीशु मसीह तुम सब पर निरन्तर दयावन्त बने रहें और तुम्हें शान्ति प्रदान करें। 4जब मैं प्रार्थना करता हूँ, तो {हे फिलेमोन,} तेरे लिए मैं सर्वदा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, 5क्योंकि {लोग मुझे बताते हैं कि} तू प्रभु यीशु पर कितना भरोसा रखता है और तू उससे तथा परमेश्वर के सारे लोगों से कितना प्रेम करता है। 6मैं यह प्रार्थना भी करता हूँ कि जिस प्रकार से तू मसीह पर भरोसा रखता है, जैसे कि हम भी उस पर भरोसा रखते हैं, तू उन सब भली बातों को और भी अच्छे से समझने पाए जो मसीह ने उसकी सेवा करने के लिए हमें दी हैं। 7हे मेरे प्रिय मित्र, तूने मुझे बहुत अच्छे से प्रोत्साहित किया है और मुझे बहुत ही आनन्दित किया है। क्योंकि तू परमेश्वर के लोगों को अत्याधिक प्रेम करने के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करता रहा है। 8इसलिए {क्योंकि तू परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता है,} और क्योंकि मैं मसीह का {प्रेरित} हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मसीह मुझे तुझे वह करने का आदेश देने की अनुमति प्रदान करेगा जो तुझे करना चाहिए। 9परन्तु {तुझे आदेश देने के बजाए,} {क्योंकि हम एक दूसरे के प्रेम करते हैं,} मैं, पौलुस, जो बूढ़ा हूँ और इस समय बन्दी भी हूँ क्योंकि मैं मसीह, यीशु की सेवा करता हूँ, केवल निवेदन करता हूँ {कि तू ऐसा करे।} 10मैं तुझ से विनती करता हूँ कि तू उनेसिमस के लिए कुछ कर। {जब से मैंने यहाँ पर उसे मसीह के विषय में बताया है} बन्दीगृह में वह मेरे लिए एक पुत्र के समान हो गया है। 11बीते समय में वह तेरे लिए बेकार था, परन्तु इस समय पर वह तेरे और मेरे दोनों के लिए उपयोगी है। 12यद्यपि वह मुझे अत्यन्त प्रिय है, मैं उसे तेरे पास वापस भेज रहा हूँ। 13मैं उसे यहाँ पर अपने पास रखना चाहता था ताकि वह तेरे स्थान पर मेरी सेवा करे, विशेष रूप से जबकि {मसीह के विषय में} शुभ सन्देश प्रचार करने के कारण से मैं अभी भी बन्दीगृह में हूँ। 14तब पर भी, {मैं उसे तेरे पास वापस भेज रहा हूँ} क्योंकि तूने मुझ से नहीं बोला कि मैं उसे यहाँ पर रख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी सहायता करे {क्योंकि तू मेरी सहायता करना चाहता है,} और इसलिए नहीं कि मैंने तुझे मेरी सहायता करने के लिए विवश किया है। 15हो सकता है कि इस छोटी सी अवधि के दौरान {तुझ से} अलग होने की {परमेश्वर ने उनेसिमस को अनुमति दी हो} ताकि {एक विश्वासी के रूप में} वह तेरे पास वापस आए और सदा के लिए तेरे साथ रहे। 16ऐसा इसलिए है क्योंकि {उनेसिमस} अब दास जैसा नहीं रह गया है, परन्तु वह एक दास से भी बढ़कर है। क्योंकि अब तू उससे एक साथी विश्वासी के समान प्रीति रख सकता है! वह मुझे अत्यन्त प्रिय है, परन्तु निश्चय ही वह तुझे और भी अधिक प्रिय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब {एक दास के रूप में} वह केवल तेरा ही नहीं है, परन्तु वह प्रभु का भी है। 17इसलिए यदि {उस काम को करने में जो परमेश्वर ने हम को सौंपा है} तू मुझे अपना संगी मानता है, तो फिर जिस रीति से तू मेरा स्वागत करेगा वैसे ही अपने घर में उनेसिमस का स्वागत कर। 18परन्तु यदि उसने तेरा कुछ ले लिया है, या किसी वस्तु में उस पर तेरा कर्ज है, तो मैं तुझे चुका दूँगा। 19मैं, पौलुस, अपने हाथ से तुझे यह लिख रहा हूँ: जो कुछ भी उस पर तेरा बकाया है मैं तुझे चुका दूँगा। मैं निश्चित हूँ कि मुझे तुझे स्मरण करवाने की आवश्यकता नहीं कि तुझ पर तेरा जीवन मेरा कर्ज है {उससे भी बढ़कर जितना शायद उनेसिमस पर तेरा कर्ज हो,} {क्योंकि परमेश्वर ने तेरा जीवन बचाया} {जब मैंने तुझे मसीह के विषय में बताया था।} 20हाँ, हे मेरे साथी विश्वासी, {मैं वही कह रहा हूँ जो तुझे लगता है कि मैं कह रहा हूँ}। मैं चाहता हूँ {कि तू मेरे लिए ऐसा ही करे} उस कारण से जो प्रभु ने {तेरे लिए} किया। मुझे प्रसन्न होने का एक और कारण दे कि हम दोनों मसीह में जुड़ गए हैं। 21जब मैं {यह पत्र} तुझे लिख रहा हूँ, तो मुझे भरोसा है कि जिस काम को करने के लिए मैं तुझ से विनती कर रहा हूँ तू उसे करेगा। बल्कि, मैं जानता हूँ कि जिस काम को करने के लिए मैं तुझ से विनती कर रहा हूँ तू उससे भी बढ़कर करेगा। 22{जिस काम को करने के लिए मैं तुझ से विनती कर रहा हूँ जब तू उसे करे}, तो मैं तुझ से यह भी विनती करता हूँ कि तू अपने घर में मेरा स्वागत करने की भी तैयारी कर। क्योंकि तुम सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए मैं भरोसे के साथ इस बात की आशा करता हूँ {कि परमेश्वर मुझे बन्दीगृह से बाहर निकलने की} और तुम सब के पास आने की अनुमति प्रदान करेगा। 23इपफ्रास, जो यीशु मसीह {की सेवा करने के कारण} मेरे साथ बन्दीगृह में {पीड़ित हो रहा} है, तुझे नमस्कार करता है। 24मरकुस, अरिस्तर्खुस, देमास, और लूका, जो मेरे सहकर्मी यहाँ पर हैं, {वे भी तुझे नमस्कार करते हैं}। 25{मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह तुझ पर निरन्तर दयावन्त बना रहे। आमीन।

# योगदानकर्ताओं

## Hindi GST - Greek Aligned योगदानकर्ताओं

Acsah Jacob  
Amos Khokhar  
Dr. Bobby Chellapan  
Hind Prakash  
Jinu Jacob  
M.V Sunny  
Robin  
Vipin Bhadran  
Zipson George